


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 386]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2002/श्रावण 30, 1924

No. 386]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2002/SRAVANA 30, 1924

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2002

सं. 42/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 587(अ).—केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) तारीख 1 मार्च, 2002 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा.का.नि. 127(अ); तारीख 1 मार्च, 2002] प्रकाशित की है;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना की सारणी की क्रम सं. 122 के सामने विनिर्दिष्ट छूट की परिधि और लागू होना स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतः, अत्र, केन्द्रीय सरकार उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2002 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, उपाबंध में, शर्त सं. 20 और उससे संबंधित शर्त के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—(1) शंकाओं के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सारणी के स्तम्भ (3) में क्रम सं. 122 के सामने आने वाले माल के संबंध में, इस शर्त के बारे में यह आशयित है कि उसका समाधान हो गया है यदि,—

- (i) निवेशों, और
- (ii) सैनवेट प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 6 के उपनियम (4) के अनुसार इस माल के विनिर्माण में अनन्य रूप से उपयोग किए गए पूंजी माल,

पर मंदत शुल्क के किसी प्रत्यय का सैनवेट प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन उपभोग नहीं किया गया है;

- (2) यह स्पष्टीकरण ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इस अधिसूचना का सदैव से भाग रहा हो।”

[फा. सं. 357/16/2002—टी आर यू]

विशेष प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा.का.नि. 127(अ), तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा प्रकाशित हुई थी एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 41/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19 अगस्त, 2002 [सा.का.नि. 581(अ), तारीख 19 अगस्त, 2002] द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2002

No. 42/2002-Central Excise

G.S.R. 587(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) has issued Notification No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 127(E), dated the 1st March, 2002], published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st March, 2002;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the exemption specified against S. No. 122 of the Table to the said notification by inserting an explanation in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 5A of the said Central Excise Act, the Central Government, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002, namely :—

In the said notification, in the Annexure, after condition No. 20 and the condition relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“Explanation.—(1) For the removal of doubts, it is hereby clarified that in respect of the goods specified in column (3) of the Table occurring against S. No. 122, this condition is intended to have been satisfied if no credit of duty paid on,—

(i) the inputs, and

(ii) the capital goods used exclusively in the manufacture of these goods, in accordance with sub-rule (4) of rule 6 of the CENVAT Credit Rules, 2002,

has been availed under rule 3 or rule 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002;

(2) This *Explanation* shall have effect as if it had always been the part of this notification.”.

[F No. 357/16/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide Notification No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 127(E), dated the 1st March, 2002] and was last amended by Notification No. 41/2002-Central Excise, dated the 19th August, 2002 [G.S.R. 581(E), dated the 19th August, 2002].